



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 53-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 20, 2025 (PHALGUNA 29, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 मार्च, 2025

**संख्या 18/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।  
(2) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 23 जनवरी, 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-  
“16क. अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करना- जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, किन्तु अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई भुगतान करना अपेक्षित है, समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान कर सकता है और प्ररूप जीएसटी आर. ई. जी. -12 के भाग ख में ओदश जारी कर सकता है।”
- उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, नियम 19 में, उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटी आर. ई. जी. -10” शब्द, अक्षरों, चिह्न और अंकों के पश्चात्, “या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संयुक्त करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में” शब्द, अक्षर, चिह्न और अंक रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, नियम 87 में, उपनियम (4) में, “ सामान्य पोर्टल” शब्दों से पूर्व, “नियम 16क के अनुसार” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, “प्ररूप आर. ई. जी. -12” के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी आर. ई. जी. -12

(देखिए नियम 16 (1) तथा 16क)

संदर्भ संख्या-

सेवा में,

(नाम) :

(पता) :

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/स्वतः प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान संख्या प्रदान करने का आदेश

दिनांक :

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए, आपका अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। कारबार परिसर से यथा अभिनिश्चित कारबार की विशिष्टियाँ निम्नलिखित हैं:

## भाग क

उस व्यक्ति का विवरण जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष / महिला / अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म तिथि	
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या / फ्लैट संख्या
		तल संख्या
		परिसर / भवन का नाम
		सड़क / गली
		कस्बा / नगर / इलाका / गांव
		ब्लॉक / तालुका
		जिला
		राज्य
		पिन कोड
6.	व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल संख्या	
8.	ई-मेल पता	
9.	अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो (वोटर आईडी संख्या / पासपोर्ट संख्या / ड्राइविंग लाइसेंस संख्या / आधार संख्या / अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण / अस्थायी आईडी की प्रभावी तिथि	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या / अस्थायी आईडी	

## 13. बैंक खातों का विवरण (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है)	
--	--

## बैंक खाते 1 का विवरण

खाता संख्या																
खाते का प्रकार											आईएफएससी					
बैंक का नाम																
शाखा का पता	स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)															

टिप्पण – और बैंक खाते जोड़ें.

(अधिग्रहण ज्ञापन/निरोध ज्ञापन/ कोई अन्य समर्थकारी दस्तावेज अपलोड करना)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के नब्बे दिन के भीतर उचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है। >>

हस्ताक्षर

स्थान

<< अधिकारी का नाम >> :

तिथि:

पदनाम/क्षेत्राधिकार:

टिप्पण : आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/ राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

भाग ख

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और इसलिए, आपको निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक अस्थायी पहचान संख्या प्रदान की जाती है :

अस्थायी पहचान संख्या प्रदान किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष / महिला / अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म तिथि	
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या / प्लैट संख्या
		तल संख्या
		परिसर / भवन का नाम
		सड़क / गली
		कस्बा / नगर / इलाका / गांव
		ब्लॉक / तालुका
		जिला
		राज्य
		पिन कोड
6.	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल संख्या	
8.	ई-मेल पता	
9.	अन्य पहचान पत्र, यदि कोई हो (वोटर आईडी संख्या / पासपोर्ट संख्या / ड्राइविंग लाइसेंस संख्या / आधार संख्या / अन्य)	
10.	अस्थायी आईडी की प्रभावी तिथि	
11.	अस्थायी आईडी	

13. बैंक खातों का विवरण (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा अनुरक्षित बैंक खातों की कुल संख्या (अधिकतम 10 बैंक खातों की सूचना दी जानी है)	
--	--

बैंक खाता 1 का विवरण

खाता संख्या																
खाते का प्रकार											आईएफएससी					
बैंक का नाम																
शाखा का पता	स्वचालित रूप से भरा जाना (संपादन रीति)															

टिप्पण – और बैंक खाते जोड़ें.

हस्ताक्षर	
स्थान	<< अधिकारी का नाम >> :
तिथि:	पदनाम/क्षेत्राधिकार:
टिप्पण : आदेश की एक प्रति संबंधित केन्द्रीय/ राज्य क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को भेजी जाएगी।”।	

देविंदर सिंह कल्याण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### Notification

The 20th March, 2025

**No. 18/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

- (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2025.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd January, 2025.
- In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from a date to be notified, after rule 16, the following rule shall be inserted, namely: -  
“16A. Grant of temporary identification number. - Where a person is not liable to registration under the Act but is required to make any payment under the provisions of the Act, the proper officer may grant the said person a temporary identification number and issue an order in Part B of FORM GST REG-12.”.
- In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 19, in sub-rule (1), after the words, letters and figures “FORM GST REG-10”, the words, letters and figures “or in the intimation furnished by the composition taxpayer in FORM GST CMP-02” shall be added.
- In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 87, in the sub-rule (4), after the words “common portal”, the words, figures and letters “as per rule 16A” shall be inserted.
- In the said rules, with effect from a date to be notified, for FORM REG-12, the following form shall be substituted, namely:—

#### “FORM GST REG-12

[See rule 16 (1), 16A]

Reference Number -

Date:

To

(Name):

(Address):

Temporary Registration Number/Temporary Identification Number

**Order of Grant of Temporary Registration/Suo Moto Registration/ Temporary Identification Number**

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

**PART A**

Details of person to whom temporary registration granted		
1.	Name and Legal Name, if applicable	
2.	Gender	Male/Female/Other
3.	Father's Name	
4.	Date of Birth	DD/MM/YYYY
5.	Address of the Person	Building No./Flat No.
		Floor No.
		Name of Premises/ Building
		Road/ Street
		Town/City/Locality/Village
		Block/ Taluka
		District
		State
		PIN Code
6.	Permanent Account Number of the person, if available	
7.	Mobile No.	
8.	Email Address	
9.	Other ID, if any  (Voter ID No./ Passport No./ Driving License No./ Aadhaar No./Other)	
10.	Reasons for temporary registration	
11.	Effective date of registration/ temporary ID	
12.	Registration No. /Temporary ID	
13. Details of Bank Accounts (s) [Optional]		
Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)		

## Details of Bank Account 1

Account Number																
Type of Account										IFSC						
Bank Name																
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)															

Note – Add more bank accounts.

(Upload of Seizure Memo /Detention Memo/ Any other supporting documents)	
<< You are hereby directed to file application for proper registration within ninety days of the issue of this order>>	
Place	Signature
Date:	<<Name of the Officer>>:
	Designation/Jurisdiction:
Note: A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.	

**PART B**

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable to make any payment under the Act, and therefore, you are hereby granted a temporary identification number as per the following details:

Details of person to whom temporary identification number has been granted		
1.	Name and Legal Name, if applicable	
2.	Gender	Male/Female/Other
3.	Father's Name	
4.	Date of Birth	DD/MM/YYYY
5.	Address of the Person	Building No./Flat No. Floor No. Name of Premises/ Building Road/ Street Town/City/Locality/Village Block/ Taluka District State PIN Code
6.	Permanent Account Number of the person, if available	
7.	Mobile No.	
8.	Email Address	
9.	Other ID, if any (Voter ID No./ Passport No./ Driving License No./ Aadhaar No./Other)	
10.	Effective date of temporary ID	
11.	Temporary ID	

## 12. Details of Bank Accounts (s) [Optional]

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	
--	--

## Details of Bank Account 1

Account Number																	
Type of Account											IFSC						
Bank Name																	
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)																

Note – Add more bank accounts.

Place	Signature
Date:	<<Name of the Officer>>:
	Designation/Jurisdiction:
Note: A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.”,	

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.